



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1089]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 20, 2004/अग्रहायण 29, 1926

No. 1089]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 20, 2004/AGRAHAYANA 29, 1926

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2004

का.आ. 1395 (अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरणों को स्थापित करती है, जो उक्त सारणी के स्तंभ (3) के सामने उल्लिखित क्रमशः स्थानों पर, उक्त सारणी के तत्स्थानी स्तंभ (4) के सामने दिए गए राजमार्ग की सीमाओं के भीतर अपनी-अपनी अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करेंगी :—

सारणी

क्रम सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण का नाम	अधिकरण की अवस्थिति का स्थान	अधिकरण की अधिकारिता के भीतर राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण, चंडीगढ़	चंडीगढ़	जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल राज्यों, दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ की स्थानीय सीमाओं के भीतर राष्ट्रीय राजमार्गों की संपूर्ण लंबाई।
2.	राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण, लखनऊ	लखनऊ	उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों की स्थानीय सीमाओं के भीतर राष्ट्रीय राजमार्गों की संपूर्ण लंबाई।
3.	राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण, कोलकाता	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड राज्यों की स्थानीय सीमाओं के भीतर राष्ट्रीय राजमार्गों की संपूर्ण लंबाई।
4.	राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण, मुम्बई	मुम्बई	महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और गोवा राज्यों की स्थानीय सीमाओं के भीतर राष्ट्रीय राजमार्गों की संपूर्ण लंबाई।

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण, जबलपुर	जबलपुर	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों की स्थानीय सीमाओं के भीतर राष्ट्रीय राजमार्गों की संपूर्ण लंबाई।
6.	राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण, बंगलौर	बंगलौर	केरल और कर्नाटक राज्यों की स्थानीय सीमाओं के भीतर राष्ट्रीय राजमार्गों की संपूर्ण लंबाई।
7.	राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण, चैन्नई	चैन्नई	आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पांडिचेरी राज्यों की स्थानीय सीमाओं के भीतर राष्ट्रीय राजमार्गों की संपूर्ण लंबाई।
8.	राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण, गुवाहाटी	गुवाहाटी	असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम और मणिपुर राज्यों की स्थानीय सीमाओं के भीतर राष्ट्रीय राजमार्गों की संपूर्ण लंबाई।

2. यह अधिसूचना उस तारीख को प्रवृत्त होगी, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) लागू होगा।

[फा. सं. रा.रा.-11014/2/2004-पी एंड एम]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2004

S.O. 1395(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (2) of Section 5 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003) the Central Government hereby establishes the National Highways Tribunals mentioned in Column (2) of the Table given below at the respective places mentioned against each in column (3) of the said Table with the limits of the National Highways shown against each in the corresponding column (4) of the said Table within which the respective Tribunal shall exercise its jurisdiction, powers and authority :—

TABLE

Serial Number	Name of National Highways Tribunal	Place of location of Tribunal	Limits of the National Highways within the jurisdiction of the Tribunal
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	National Highways Tribunal, Chandigarh	Chandigarh	All the lengths of National Highways within the local limits of the States of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Uttranchal, National Capital Territory of Delhi and Union Territory of Chandigarh.
2.	National Highways Tribunal, Lucknow	Lucknow	All the lengths of National Highways within the local limits of the States of Uttar Pradesh and Bihar.
3.	National Highways Tribunal, Kolkata	Kolkata	All the lengths of National Highways within the local limits of States of West Bengal, Orissa and Jharkhand.
4.	National Highways Tribunal, Mumbai	Mumbai	All the lengths of National Highways within local limits of the States of Maharashtra, Rajasthan, Gujarat and Goa.
5.	National Highways Tribunal, Jabalpur	Jabalpur	All the lengths of National Highways within local limits of the States of Madhya Pradesh and Chhattisgarh.
6.	National Highways Tribunal, Bangalore	Bangalore	All the lengths of National Highways within local limits of States of the Kerala and Karnataka.

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	National Highways Tribunal, Chennai	Chennai	All the lengths of National Highways within local limits of the States of Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Pondicherry.
8.	National Highways Tribunal, Guwahati	Guwahati	All the lengths of National Highways within local limits of the States of Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Tripura, Nagaland, Sikkim, Mizoram and Manipur.

2. This notification shall come into force on the date on which the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003) shall come into force.

[F. No. NH-11014/2/2004-P & M]

ALOK RAWAT, Jt. Secy.